

## Absentees Statement अनुपस्थिति विवरण-पत्रक

अनुपस्थित कर्मचारी का नाम	वास्तविक वेतन दर	रिक्त स्थान का पद एवं वेतन की दर	अनुपस्थिति का विवरण				अनुपस्थित के भत्ते की मासिक दर	महालेखापाल के कार्यालय में पूर्ति हेतु		स्थानापन्न अधिकारी (यदि कोई हो)				महालेखापाल के कार्यालय में पूर्ति हेतु
			किस्म	अवधि	पूर्वान्ह या मध्याह्न से	पूर्वान्ह या मध्याह्न तक		E.C.	S.	नाम	स्थाई पता	स्थाई वेतन	स्थानापन्न के लिए अधिक वेतन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

दिनांक .....

वेतन प्रेषक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद

Note:—

- In column 4 Should be stated "full average pay", "without pay", "other duty", "officiating", "In transit", "transferred to", "suspended, etc. the date for each being specified as far as possible in column 6 and 7. In case of suspension it would be noted whether or not the period for person.
- The statement should be divided off into sections corresponding to sections in the bill, arrangements affecting one section only being shown together.
- When the leave salary noted in column 8 differs from that based on the rate of pay noted in the last establishment return particulars of the calculation should be given in Form GA 91 attached to the first bill in which the leave salary is drawn. If the calculation involves pay drawn outside the officers substantive section, references to the vouchers in which sums were drawn should also be given.
- All changes in the personal of the permanent establishment due to retirements, transfers, deaths and consequent new appointment and increases and decreases of cards or establishment should be shown. The number of posts left unfilled should be noted at the end of each section and if there is no unfilled post in any month the facts should be recorded. Vacancies against which officiating arrangements have been made should be shown individually and in full details.